

AT-1290

B.Com. (Part-II) Examination
INCOME TAX AND AUDITING
(Commerce)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

Note :— ALL questions are compulsory.

SECTION—A
(Income Tax)

1. (A) What do you mean by a person ? 5
- (B) Explain the terms "Ordinarily Resident and Not Ordinarily Resident". 5

OR

- (C) Explain 'Casual Income'. 5
 - (D) Write the five fully tax free allowances. 5
2. The following particulars are of Mr. Ankur's income :
- (1) Basic salary Rs. 34,800 p.m.
 - (2) Dearness allowance (under the terms of employment) Rs. 3,500 p.m.
 - (3) Medical allowance Rs. 37,200 p.a.
 - (4) Education allowance (for 3 children) Rs. 15,700 per annum
 - (5) Professional tax Rs. 7,000
 - (6) A domestic servant, a sweeper and a watchman were paid by the company @ Rs. 2,250 per month each.
 - (7) His contribution to R.P.F. Rs. 31,000 and employer's contribution Rs. 36,000.
 - (8) Rent free house (in Jaipur)—the company paid Rs. 8,000 per month as rent. The house is furnished and the rent of the furniture is 25,050 p.a.
 - (9) The company spent Rs. 8,000 on his refresher course.
- Compute the taxable income from Salary for the Assessment Year 2016-17. 15

OR

Shri Nayan is the owner of two houses. He has furnished the following particulars for the financial year 2015-16.

First House : Its municipal valuation is Rs. 40,000. It is used by Nayan for his own residence. He paid Rs. 200 fire insurance premium and Rs. 4,000 municipal tax. He also paid interest on loan Rs. 20,000. This loan was taken to repay another loan taken for the construction of this house.

Second House : Its municipal valuation is Rs. 24,000 and standard rent Rs. 30,000 (Rent Control Act applicable). It has been let out at Rs. 3,000 per month. He made following payments :

Municipal Tax	Rs. 6,000
Repairs	Rs. 1,000
Land Revenue	Rs. 200
Legal Expenses	Rs. 500
Annual Charge	Rs. 3,000

This house remained vacant for 2 months. Rs. 9,000 could not be recovered from the defaulting tenant, the tenant has vacated the house.

Compute his taxable income from house property for the Assessment Year 2016-17. 15

3. (A) Particulars of Mr. Dhawal's

(1) Dividend on equity share	Rs. 600
(2) Dividend on preference share	Rs. 3,200
(3) Interest on Bank deposits	Rs. 2,500
(4) Directors sitting fees received	Rs. 1,200
(5) Income from undisclosed source	Rs. 10,000

Compute the Income from Other Sources. 5

(B) What is tax management ? 5

OR

(C) Investment made by Mr. Piyush during the year ended 31st March 2016 is as below :

(1) 7% Government Securities	Rs. 25,000
(2) 8% Agra Municipal Bonds	Rs. 15,000
(3) 9% Mumbai Port Trust Bonds	Rs. 20,000
(4) 6% Securities of a Foreign Government	Rs. 15,000
(5) 7% Government Bonds	Rs. 18,000

Find out his Income from Other Sources. 5

(D) Explain the section 80C of Income Tax Act. 5

SECTION—B

(Auditing)

4. (A) Write the advantages of Auditing. 5
(B) State the difference between internal check system and internal audit. 5

OR

- (C) Explain the 'Valuation of Assets'. 5
(D) State the difference between Annual Audit and Continuous Audit. 5
5. (A) Explain the kinds of Audit Report. 5
(B) Write the duties of an Auditor. 5

OR

- (C) Explain the types of Dividend. 5
(D) Write the criminal liabilities of an Auditor. 5
6. Discuss the important points to be considered in the audit of Insurance Company. 15

OR

What are the points to be considered while auditing non-profitable organisation (Educational Institutions) ? 15

AT-1290

B.Com. (Part-II) Examination
INCOME TAX AND AUDITING
(Commerce)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

(मराठी माध्यम)

सूचना :— सर्व प्रश्न सोडविणे अनिवार्य आहे.

विभाग—अ

(आयकर)

1. (अ) 'व्यक्ती' म्हणजे काय ? 5
- (ब) साधारण निवासी व असाधारण निवासी या संज्ञा स्पष्ट करा. 5
- किंवा
- (क) 'आकस्मिक उत्पन्न' स्पष्ट करा. 5
- (ड) पुर्णपणे करमुक्त असलेले पाच भत्ते लिहा. 5
2. श्री अंकुर यांचे उत्पन्नाचे विवरण खालील प्रमाणे आहे :
 - (1) मूळ वेतन रु. 34,800 प्रति महिना
 - (2) महागाई भत्ता (सेवांच्या नियमानुसार) रु. 3,500 प्र.म.
 - (3) वैद्यकिय भत्ता रु. 37,200 वार्षिक
 - (4) शिक्षण भत्ता (3 मुलासाठी) रु. 15,700 वार्षिक
 - (5) व्यवसाय कर रु. 7,000
 - (6) नौकर, सफाई कर्मचारी आणि चौकीदार घरकामा करिता आहे. जो खर्च कंपनीकडून देण्यात येतो प्रत्येकी रु. 2,250 प्रतिमहा
 - (7) प्रमाणित भाविष्य निधी मध्ये स्वतःचे रु. 31,000 अंशदान असून कंपनीकडून रु. 36,000 चे अंशदान करण्यात येते.
 - (8) भाडे मुक्त घर (जयपूर येथे) कंपनीने दिले असून त्याचे रु. 8,000 प्रति महिना भाडे आहे। घर सुसज्जीत असून फर्निचर चे भाडे रु. 25,050 वार्षिक आहे.
 - (9) कंपनी कडून त्यांच्या उद्बोधन कोर्ससाठी खर्च रु. 8,000.
- करनिर्धारण वर्ष 2016-17 साठी वेतनापासून करयोग्य उत्पन्नाचे आगणन करा. 15
- किंवा

श्री नयन हे दोन घराचे मालक आहे. आर्थिक वर्ष 2015-16 मधील माहिती खालील प्रमाणे दिलेली आहे :

पहिले घर : नगरपालीका मुल्यांकन रु. 40,000 आहे. नयन स्वतः या घराचा उपयोग राहण्यासाठी करतात. त्यांनी रु. 200 अग्नि विमा प्रव्याजी आणि रु. 4,000 नगरपालीका कराचे शोधन केलेले आहे. कर्जावरील व्याजाचे शोधन रु. 20,000 केले. हे कर्ज घर बांधण्यासाठी घेतलेल्या एका कर्जाची परतफेड करण्यासाठी घेतले होते.

दुसरे घर : नगरपालीका मुल्यांकन रु. 24,000 आहे आणि वैधानिक भाडे रु. 30,000 (Rent Control Act) आहे. हे घर रु. 3,000 प्रति महिना भाड्याने दिलेले आहे याबाबत खालील शोधन केले आहे :

नगरपालीका कर रु. 6,000

दुरुस्ती रु. 1,000

भूमी महसूल रु. 200

कायदा खर्च रु. 500

वार्षिक शुल्क रु. 3,000

हे घर दोन महिने रिकामे होते. भाडेकरू कडून रु. 9,000 वसूल करण्यात आले नाही. भाडेकरूने घर खाली केले.

करनिर्धारण वर्ष 2016-17 साठी गृहसंपत्तीपासून करयोग्य उत्पन्नाचे आगणन करा. 15

3. (अ) श्री धवल च्या उत्पन्नाचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे :

(1) समता अंशावर लाभांश रु. 600

(2) पूर्वाधिकार अंशावर लाभांश (सकल) रु. 3,200

(3) अधिकोषातील जमा रकमेवर व्याज रु. 2,500

(4) संचालकाच्या सभेत सहभागाबाबतची फी रु. 1,200

(5) अदृश्य साधनापासून चे उत्पन्न रु. 10,000

इतर साधनापासूनचे उत्पन्न आगणित करा. 5

(ब) कर व्यवस्थापन म्हणजे काय ? 5

किंवा

(क) 31 मार्च, 2016 ला संपणाऱ्या वर्षात श्री पियुषची गुंतवणूक खालील प्रकारे होती :

(1) 7% सरकारी प्रतिभूती (रोखे) रु. 25,000

(2) 8% आग्रा महानगरपालीका कर्जरोखे रु. 15,000

(3) 9% मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्जरोखे रु. 20,000

(4) 6% विदेशी सरकारची प्रतिभूती रु. 15,000

(5) 7% सरकारी कर्जरोखे रु. 18,000

'इतर स्रोतापासून उत्पन्न' या शीर्षकाखाली उत्पन्नाचे आगणन करा. 5

(ड) आय. कर अधिनियमाचे अनुच्छेद 80(C) स्पष्ट करा 5

विभाग—ब

(अंकेक्षण)

4. (अ) अंकेक्षणाचे फायदे लिहा 5
(ब) आभ्यांतर अवरोध पद्धती व अंतर्गत अंकेक्षण यातील फरक स्पष्ट करा. 5
किंवा
(क) 'संपत्तीचे मुल्यांकन' स्पष्ट करा. 5
(ड) वार्षिक अंकेक्षण व सतत अंकेक्षण यातील फरक स्पष्ट करा 5
5. (अ) अंकेक्षण अहवालाचे प्रकार स्पष्ट करा. 5
(ब) अंकेक्षकाचे कर्तव्ये लिहा. 5
किंवा
(क) लाभांशाचे प्रकार, स्पष्ट करा 5
(ड) अंकेक्षकाच्या फौजदारी जबाबदाऱ्या कोणत्या आहेत ? 5
6. विमा कंपनीचे अंकेक्षण करताना कोणते मुख्य मुद्दे विचारात घ्याल, चर्चा करा. 15
किंवा
गैर व्यापारिक संघटनेचे (शैक्षणिक संस्था) अंकेक्षण करताना कोणते मुद्दे विचारात घेतले जावेत ? 15

AT-1290

B.Com. (Part-II) Examination
INCOME TAX AND AUDITING
(Commerce)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

(हिन्दी माध्यम)

सूचना :— सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

विभाग—अ

(आयकर)

1. (अ) 'व्यक्ति' इस संज्ञा से आप क्या समझते हैं ? 5
- (ब) साधारण निवासी एवं असाधारण निवासी यह संज्ञा स्पष्ट कीजिये। 5
- अथवा
- (क) 'आकस्मिक आय' स्पष्ट कीजिये। 5
- (ड) पूर्णतः करमुक्त पाँच भत्ते लिखिये। 5
2. श्री अंकुर की आय का विवरण निम्न प्रकार से है :
 - (1) मूल वेतन रु. 34,800 प्रति माह।
 - (2) मंहगाई भत्ता (सेवाओं की शर्ती के अधीन) रु. 3,500 प्रतिमाह।
 - (3) चिकित्सा भत्ता रु. 37,200 वार्षिक।
 - (4) शिक्षा भत्ता (3 बच्चों के लिये) रु. 15,700 वार्षिक।
 - (5) व्यवसाय कर रु. 7,000।
 - (6) घरेलू नौकर, फर्लाश एवं चौकीदार जिनका प्रत्येकी वेतन रु. 2,250 प्रतिमाह है। कंपनी द्वारा चुकाया जाता है।
 - (7) प्रमाणित प्रॉविडेंट फण्ड में उनका अंशदान रु. 31,000 एवं नियोक्ता का अंशदान रु. 36,000।
 - (8) किराया मुक्त मकान (जयपुर) कंपनी रु. 8,000 प्रतिमाह किराया चुकाती है। मकान सुसज्जित है एवं उसके फर्निचर का किराया रु. 25,050 वार्षिक है।
 - (9) कंपनी द्वारा उनके रिफ्रेशर कोर्स पर व्यय रु. 8,000।
- 2016-17 कर निर्धारण वर्ष के लिये 'कर योग्य वेतन से आय' की गणना कीजिये। 15

अथवा

श्री नयन दो मकानों के स्वामी हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये निम्न विवरण दिये हैं :

प्रथम मकान : इसका नगरपालिका मूल्यांकन रु. 40,000 है। यह नयन द्वारा स्वयं निवास के लिये प्रयोग किया जाता है। उसने रु. 200 अग्नि बीमा प्रीमियम एवं रु. 4,000 नगरपालिका कर के चुकाये। उसने ऋण पर रु. 20,000 ब्याज का भुगतान भी किया। यह ऋण इस मकान को बनवाने के लिये, लिये गये एक अन्य ऋण को चुकाने के लिये लिया गया था।

द्वितीय मकान : इसका नगरपालिका मूल्यांकन रु. 24,000 है तथा मानक किराया रु. 30,000 है (Rent Control Act लागू)। यह रु. 3,000 प्रतिमाह के किराये पर लिया गया है। उसमें निम्न भुगतान किये हैं :

नगरपालिका कर	रु. 6,000
मरम्मत	रु. 1,000
भू राजस्व	रु. 200
कानूनी व्यय	रु. 500
वार्षिक भार	रु. 3,000

यह मकान दो माह खाली रहा। दोषी किरायेदार से रु. 9,000 वसूल नहीं किये जा सके। किरायेदार ने मकान खाली कर दिया।

करनिर्धारण वर्ष 2016-17 के लिये उसकी मकान सम्पत्ति से कर योग्य आय की गणना कीजिये।

15

3. (अ) श्री धवल की आय का विवरण निम्न प्रकार से है :

(1) समता अंशों पर लाभांश	रु. 600
(2) पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश (सकल)	रु. 3,200
(3) बैंक जमा पर ब्याज	रु. 2,500
(4) संचालकों की बैठक में भाग लेने फीस प्राप्त की	रु. 1,200
(5) अदृश्य साधनों से आय	रु. 10,000
अन्य साधनों से आय ज्ञात कीजिये।	5

(ब) कर प्रबंधन का अर्थ बताइये।

5

अथवा

(क) 31 मार्च, 2016 को समाप्त होनेवाले वर्ष में श्री पियुष के विनियोग निम्नांकित थे :

(1) 7% सरकारी प्रतिभूतियां	रु. 25,000
(2) 8% आगरा म्युनिसिपल बॉण्ड	रु. 15,000
(3) 9% मुंबई पोर्ट ट्रस्ट बॉण्ड	रु. 20,000
(4) 6% विदेशी सरकार की प्रतिभूतियां	रु. 15,000
(5) 7% सरकारी बॉण्ड	रु. 18,000

'अन्य साधनों से आय' शीर्षक की आय की गणना कीजिये।

5

(ड) आयकर की धारा 80(C) स्पष्ट कीजिये।

5

विभाग—ब

(अंकेक्षण)

4. (अ) अंकेक्षण के लाभ लिखिये। 5
(ब) आभ्यांतर अवरोध पद्धति और अंतर्गत अंकेक्षण में अन्तर स्पष्ट कीजिये। 5

अथवा

- (क) 'संपत्ति का सत्यापन' स्पष्ट कीजिये। 5
(ड) वार्षिक अंकेक्षण एवं सतत अंकेक्षण में अन्तर स्पष्ट कीजिये। 5
5. (अ) अंकेक्षण प्रतिवेदन के प्रकार स्पष्ट कीजिये। 5
(ब) अंकेक्षक के कर्तव्य लिखिये। 5

अथवा

- (क) 'लाभांश' के प्रकार स्पष्ट कीजिये। 5
(ड) अंकेक्षक के फौजदारी दायित्व लिखिये। 5
6. बीमा कंपनी का अंकेक्षण करते समय कौनसी प्रमुख बातों पर ध्यान देना चाहिये ? चर्चा कीजिये। 15

अथवा

गैर व्यापारिक संगठन (शैक्षणिक संस्था) का अंकेक्षण करते समय कौन से मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिये ? 15